TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LIMITED

ENGINEERS & CONSTRUCTORS

(Formerly known as *Simran Wind Project Limited*) Corporate Office: 1B, Park Plaza, South Block, 71,Park Street, Kolkata - 700016 Tel:(033) 4051-3000, Fax : (033) 4051-3326, Email : techno.email@techno.co.in CIN: L40108UP2005PLC094368



May 4, 2019

BSE Ltd.	National Stock Exchange of India Ltd.
Department of Corporate Services	5 th floor, Exchange Plaza
PhirozeJeejeebhoy Towers	Bandra – Kurla Complex
Dalal Street,	Bandra (East)
<u> Mumbai – 400 001</u>	<u>Mumbai – 400 051</u>
BSE CODE : 542141	NSE SYMBOL : TECHNOE

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation of Public Announcement – Post Buyback of Equity Shares of the Company

Pursuant to SEBI (Buyback of Securities), Regulations, 2018 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we submit herewith Post Buyback Public Announcement for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Techno Electric & Engineering Company Ltd.

(Niranjan Brahma) **Company Secretary** Membership No. A-11652

BRAND WORLD 19

Why Brand Saridon clicks with all

Despite competition and a brief ban, consumers continue to turn to the painkiller. What makes it tick?

SOHINI DAS Mumbai, 24 April

very second, 21 con-✓ sumers in India pop a Saridon to relieve themselves of a pounding headache. In ten years, Saridon, whose brand licensing rights were picked up by Piramal Enterprises in the 1990s from pharma major Roche, has grown 20 times. It now has a turnover of ₹100 crore from ₹5 crore a decade ago and accounts for a fourth of the Piramal group's revenue within its consumer products division. Plans are afoot to grow its retail presence aggressively in addition to launching a host of new variants in the future.

For a humble headache pill, developed by Roche in Switzerland and brought to India by the company in 1969, the journey over the last five decades has been barely easy. Formulation changes have been par for the course, not to mention that the brand has had to contend with a wide array of painkillers including tablets and balms. Some of them have been deeply entrenched in Indian homes (such as Tiger and Amrutanian balms) and replacing them with strips of Saridon has been an uphill task, say industry experts.

What has worked though for Brand Saridon has been its single-minded focus on headaches as opposed to other analgesics that dwell on a wider set of problems. As per Nielsen, the addressable analgesic or painkiller market is ₹6,450 crore, of which ₹2,050 crore is the analgesic tablet segment. Saridon is part of this category.

other analgesic "Most

► FROM PAGE 1 Sebi bars Leela from asset sale to **Brookfield**

which owns a 26 per cent stake in the company, and asked them to file their reply within three weeks to which rejoinders can be filed subsequently.

Since the deal has been staved by the market regulator, the NCLT is not in urgency to take a decision. The tribunal in the next hearing will hear arguments of ITC s to why a waiver should be granted for its



HOTO:REUTERS

tablets are associated with a broader spectrum of issues from fever to bodyaches and headaches. For Saridon, it is only one category that counts - headaches. It is little wonder then that the brand is almost generic to the segment and has seen phenomenal growth over the years," says N Chandramouli, chief executive officer of brand intelligence and data insights company, TRA.

Under the Piramals, Saridon, say experts, has seen steady growth, led by clever advertising and distribution. Armed with a simple message 'Just one is enough' (Sirf ek Saridon), the Piramal group has helped push up the use of the brand among consumers

among users. The task for us is to make it available across counters so that whenever there is an incidence of headache, one can access it easily." She also adds that the brand has a fairly even spread across rural and urban areas. pointing to the speed with which the group has been ramping up distribution in the last few years. The plan, says Piramal, is to continue pushing Saridon in offline stores as it adds more variants to its portfolio.

Back after a brief ban, which saw the government include Saridon in a list of over 320 fixed dose combinations (FDC) that it feared would have adverse effects on consumers, the Piramal group says it is eyeing extensions of the brand covering a wider set of problems. Piramal had sought relief from the FDC ban right after it came into effect, with the apex court allowing Saridon to retail across the counter.

"We plan to invest in growing the brand. The idea is to have extensions for specific sub-categories of headaches, such as a Saridon for migraines, a Saridon for premenstrual syndrome-led head pain and a Saridon for stressrelated headaches," Piramal savs.

Its unique formulation, say "Saridon has huge experts, which recall among users. The task for us is to includes active make it available ingredients such across counters so as paracetamol,

that whenever propyphenazone and caffeine, is there is an incidence of expected to help Saridon retain its headache, one can access it easily" ability to work even as the cause NANDINI PIRAMAL differs. Head, consumer products,

The group is **Piramal Enterprises** also unlikely to some of the group's other contweak packaging to ensure the sumer products such as Lacto variants tie into the mother ship. While brand experts dif-Calamine and i-pill are availfer on the efficacy of this strategy, Piramal says she is looking at the next marketing phase for Saridon, with a larger presence online. The ball has been set rolling with engagment tools devised online that plug Saridon.



Regd. Office : Ferro Chrome Project - 755020. Jajpur Road, Dist. Jajpur (Odisha Ph: (06726) 220508, 220212 , Fax (06726) 220524

एअर इंडिया

Air India Ltd. invites bids for the following Tender No

Description: Facility Management Services for Air India Building at Nariman Point and Executive Flat in South Mumbai for the year 2019-20 and 2020-21. Estimated Cost ₹2.25 crores excluding GST. Last date for submission of Technical & Financial Bids is on 23.05.2019. The details of the tender document can be viewed/ downloaded from our website www.airindia.in In case of any query, you may please contact Telephone No.: 022-2279 6655/ 6406/6308. Email: VY.Takpere@airindia.in, MB.Rasal@airindia.in & JosephD.Rumao@airindia.in

TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LIMITED

(Formerly Simran Wind Project Limited) CIN: L40108UP2005PLC094368 Regd. Office: C-218, Ground Floor (GR-2), Sector-63 Noida Gautam Buddha Nagar-201307 Corporate Office: 1B, Park Plaza, South Block, 71, Park Street, Kolkata-700016 Phone No: (033) 4051 3000, Fax No: (033) 4051 3326, Website: www.techno.co.in;

E-mail: desk.investors@techno.co.in Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Niranjan Brahma

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated December 13, 2018 and published on December 17, 2018 (the "Public Announcement"), and the Letter of Offer dated March 20, 2019 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buvback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Anno ement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

- Techno Electric & Engineering Company Limited ("Techno" or the "Company") had announced the Buyback of up to 26,82,400 fully paid-up equity shares of face value of Rs 2/- each ("Equity Shares") from all the existing shareholders/beneficial owners holding Equity Shares as on the Record Date (i.e. January 03, 2019), as per the records made available to the Company by the Depositories as on the Record Date, on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of Rs. 410 per Equity Share payable in cash, for an aggregate amount not exceeding Rs. 109,97,84,000 (Rupees One Hundred Nine Crores Ninety Seven Lakhs Eighty Four Thousand Only) excluding Company's transaction cost such as brokerage, securities transaction tax, service tax, stamp duty etc. ("Buyback Offer Size") ("Buyback"). The Promoters and Promoter Group of the Company had expressed their intention not to participate in the Buyback. The Buyback Offer Size is 2.38% of the present outstanding equity shares of the Company and 9.10% of the aggregate of fully paid-up equity share capital and free reserves as per the standalone audited accounts of the Company for the financial year ended March 31, 2018 and is within the statutory limit of 10% of the aggregate of fully paid-up equity share capital and free reserves as per the standalone audited accounts of the Company for a Buyback under the Board of Directors approval route as per the provisions of the Companies Act, 2013.
- The Company had adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 ("SEBI Circular").
- The Tendering Period for the Buyback Offer opened on Friday, March 29, 2019 and closed on Thursday, April 11, 2019

DETAILS OF BUYBACK

- 26,82,400 Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 410 per Equity Share 2.2 The total amount utilized in the Buyback is Rs. 109,97,84,000 (Rupees One Hundred Nine Crores Ninety Seven Lakhs Eighty Four Thousand Only) excluding Company's transaction cost such as brokerage, securities transaction tax, service tax, stamp duty etc.
- 2.3 The Registrar to the Buyback i.e., Niche Technologies Private Limited ("Registrar"), considered 8,777 valid bids for 2,42,49,092 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the tender of approximately 9.04 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid bids considered by the Registrar are

Category of Shareholders	No. of Equity shares No. of Valid bids		Total Valid Equity	% Response						
	reserved in Buyback		shares tendered							
Reserved Category for small shareholders	4,02,360	8352	9,07,370	225.51						
General Category of other shareholders	22,80,040	425	2,33,41,722	1023.74						
Total	26,82,400	8777	2,42,49,092	904.01						

2.4 All valid bids have been considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offe

The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on April 23, 2019. The funds have been directly paid out to Eligible Shareholders by the Clearing Corporation whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India of any or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned selling members for onward transfer to such Eligible Shareholders Demat Equity Shares accepted under the Buyback have been transferred to the Company's demat escrow account on April 23, 2019. The unaccepted demat Equity Shares

have been returned to respective Shareholder Brokers/custodians by the Indian Clearing Corporation Limited on April 23, 2019.

The extinguishment of 26,82,400 Equity Shares accepted under the Buyback is currently under process and shall be completed on or before April 30, 2019 The Company and its directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the

obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

The equity capital structure of the Company, pre and post the Buyback is as under

(Equity shares have a face value of Rs. 2 each)								
	Pre-Buybac	:k*	Post-Buyback#					
Particulars	No. of equity shares	Amount (Rs. in crores)	No. of equity shares	Amount (Rs. in crores)				
Authorized Equity Share Capital	1,39,99,00,000	279.98	1,39,99,00,000	279.98				
Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital	11,26,82,400	22.54	11,00,00,000	22.00				

As on the Record Date, being January 03, 2019

Subject to extinguishment of 26,82,400 equity shares

3.2 Details of the Shareholders/beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback are as

Sr. No.	Name of the Shareholder		Share	of Equity es accepted the Buyback	Share as a	Equity es accepted % of total bought back	as a %	Equity hares accepted of total post Buyback Equity Shares
1	J.P. Financial Services Pvt Ltd		:	3,14,019		11.707		0.285
2	DSP Midcap Fund			1,58,745		5.918		0.144
3	SBI Focused Equity Fund			1,53,902		5.737		0.140
4	SBI Equity Hybrid Fund			1,36,052		5.072		0.124
5	ECAP Equities Limited			1,13,969		4.249		0.104
6	Franklin India Smaller Companies Fund			1,10,081		4.104		0.100
7	Kotak Standard Multicap Fund			1,07,465		4.006		0.098
8	DSP Small Cap Fund			98,966		3.689		0.090
9	HDFC Standard Life Insurance Company Limited			91,176		3.399		0.083
10	SBI Small Cap Fund			85,043		3.170		0.077
11	SBI Magnum Multicap Fund			84,402		3.147		0.077
12	ICICI Prudential Life Insurance Company Limited			82,643	3.081			0.075
13	Kotak Small Cap Fund			59,554	2.220			0.054
14	L & T Mutual Fund Trustee Limited - L & T Hybrid Equity Fund			57,822		2.156		0.053
15	L&T Mutual Fund Trustee Limited-L&T Emerging Businesses Fund			54,953		2.049		0.050
16	L & T Mutual Fund Trustee Ltd-L & T Mid Cap Fund			49,594	1.849			0.045
17	Max Life Insurance Company Limited A/C - ULIF01108/02/07LIFEGRWSUP104 - Growth Super Fund			44,352		1.653		0.040
18	Kotak Equity Hybrid			42,254		1.575		0.038
19	L & T Mutual Fund Trustee Ltd-L & T Tax Advantage Fund			34,058		1.270		0.031
20	DSP India T.I.G.E.R. Fund			32,895	1.226		0.030	
21	Aditya Umesh Sanghi			27,977		1.043		0.025
3.3 T	The shareholding pattern of the Company pre-buyback and Post Buybac	k is as under:						
	Postinulare		Pre-Buyba				st-Buyba	
	Particulars	No. of equi	ty shares	% of existing share cap		No. of equity	shares	% of Post- Buyback equity share capita
Prom	noters and persons acting in Concert (Collectively "the Promoters")	6,62,0	1,276	58.75	%	6,62,01,27	' 6	60.18%
	ign Investors							
	uding Non Resident Indians, FIIs and Foreign Mutual Funds)	,	3,068	1.26		4.37.98.72	л	39.82%
	ncial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/Institutions	2,61,4	,	23.20		4,31,30,12	.~+	39.02%
Othe	ers (Public, Public Bodies Corporate etc.)	1,89,1	6,614	1				

able. Saridon is also retailed across pharmacies, kiranas and general stores, ensuring ease of availability across the board. As Nandini Piramal, who heads the group's consumer products division. savs. "Saridon has huge recall

and has also

ensured that its

retail reach has

grown in propor-

tion to demand. It

900,000 outlets,

more than double

the number of

stores (420,000

reaches

where

todav

outlets)

sought the cancellation of the issue and allotment of 163.9 million equity shares in

September 2017, constituting 26 per cent in the hotel company, to JM Financial ARC, which converted part of its loan into equity for about Rs 275 crore. Moreover, it sought mandatory injunc-

tions restraining Hotel Leela, its promoters, directors and JM Financial ARC from the implementation of the decisions taken at Leela's board meeting on March 18, where it approved the sale and transfer of assets of four hotels (New Delhi, Chennai, Bengaluru and Udaipur) and one property (land parcel in Agra) to Brookfield for Rs 3,950 crore announced in March.

ITC alleged that the Brookfield transacon was prejudicial oppressive an

and earnings outcome. The price of crude oil will be monitored closely along with the currency movement, said experts. Brent crude futures traded \$74.2 a barrel, down 30 cents from their previous close. Brent prices have risen 13 percent since March and 40 per cent in 2019.

Barring six, all constituents of the Sensex pack ended higher. HCL Technologies rose 3.4 per cent; ONGC, IndusInd VES Bank Bharti Airtel and HDFC rose more than 2 per cent each. Tata Motors fell 3.33 per cent — the most in the Sensex pack. All the sectoral indices of the BSE closed Wednesday's session higher, barring auto. The BSE Oil&Gas rose the most, at 2.32 per cent.

petition to be admitted under Section 241, which provides relief in case of oppression. The NCLT did not admit the case as Leela and JM objected to the fact that admitting it would mean granting waiver to ITC, which they wish to contest in the next hearing. A shareholder can file a petition alleging oppression and mismanagement if it owns at least a 10 per cent stake in a company. ITC's counsel argued that while the company had held an 11.78 per cent shareholding in Leela, its shareholding fell below 10 per cent after JM Financial ARC converted its debt into equity in September 2017. ITC currently holds 7.92 per cent in the company which is below the threshold.

A lawyer appearing on behalf of Brookfield said it would file an intervention as the ITC petition against Leela did not make the Canadian private equity firm a party to the case.

The petition filed by ITC against Leela

BS	BS SUDOKU # 2725									
				8	1			4		
1		5	2				8			
						2	1			
	1	3			4					
		8				7				
			9			4	6			
	4	9								
	8				2	5		9		
2			8	1						

Hard

SOLI	JTIC) N .	TO ‡	\$272	4
5	3	1	7	1	\$

$\star\star\star\star$	9	6	2	8	4	7	1	3	5
Solution	5	8	4	3	9	1	2	7	6
tomorrow	7	3	1	5	6	2	8	4	9
HOW TO PLAY	1	9	8	4	5	6	3	2	7
Fill in the grid so	6	2	5	7	8	3	4	9	1
that every row,	3	4	7	1	2	9	6	5	8
every column and	2	7	6	9	1	4	5	8	3
every 3x3 box	4	5	3	6	7	8	9	1	2
contains the digits 1 to 9	8	1	9	2	3	5	7	6	4

fraudulent aimed at stripping Leela of its value, leaving it as a shell company with only liabilities residing therein and benefitting the promoters who would receive at least Rs 300 crore in simultaneous and associated side deals. The minority shareholders, on the other hand, will receive nothing and will be left holding worthless shares with no underlying business or assets left within, it alleged.

ITC also sought the removal of Leela promoters Vivek Nair and Dinesh Nair, and directors Vinay Kapadia and Vijay Sharma from the board.

More on business-standard.com Earnings optimism...

Overseas investors stepped up buying, after taking money off the table a day earlier. On

Wednesday, foreign portfolio investors (FPIs) bought shares worth ₹975 crore after pulling out ₹167 crore on Tuesday, data showed. The India VIX index, a gauge for market volatility, also cooled off from its 3-year highs amid buying by FPIs. The gauge ended at 23.7, down 3.8 per cent.

"FPIs have been taking long positions in speculative index futures, which led to today's rise. The markets might go up tomorrow because of the bullish positions of FPIs. After Thursday, it will be a new set of things to look, at considering crude has gone to \$75," said Abhimanyu Sofat, vicepresident (research) at IIFL. Siddhartha Khemka of Motilal Oswal said positive FPI flows and short-covering pulled the market in the last hour. The UltraTech results were good, and did have some sentimental impact, he added

Market players said the earnings optimism has helped investors set aside concerns over high oil prices.

According to Bloomberg data, five of 49 Nifty companies to have reported earnings so far have beaten or matched expectations. Market participants expect the indices to remain volatile in

the near term, due to the elections

IndiGo, Tatas...

SpiceJet refuted the claims, saying rules were transparent and applied to all airline operators. "Any rule is applicable to SpiceJet as much as it is to other airline operators. There is a completely transparent system put in place. To suggest this has been done to favour one particular airline is baseless and defamatory in nature. The same rules apply to all operators many of whom have been aggressively inducting capacity," a SpiceJet spokesperson said.

Around 110 pairs of Jet's slots in Mumbai and 85 pairs in Delhi are being redistributed to other airlines. Slots at the two airports are scarce with limited growth in runway capacity even as airlines are inducting new planes rapidly.

A change in customs law last week made it easier for SpiceJet to induct Jet's aircraft. Last week, the finance ministry waived the mandatory customs requirement that an aircraft used by an Indian airline be flown back to the country of registration of the aircraft lessor and then fly back to India for registering with a different operator. Following this change, SpiceJet was able to expedite the process of inducting Jet's aircraft into its fleet, rivals argued. However, a large part of SpiceJet's fleet was also replacement for the grounded Boeing 737 Max, and rivals say the new additions cannot be counted as net capacity addition. "IndiGo would like to understand if the new capacity addition is being factored against the grounding," the airline asked the government. Thirteen Boeing 737 Max of SpiceJet were grounded last month. The airline was supposed to induct another 20 Max during FY19. IndiGo has sought distribution of slots to airlines based on the capacity deployed by them on domestic routes in the last five years. "Whenever there is scarcity of resources, the five-year-look-back principle needs to be adhered to as it would recognise the effort and investment the airline operators have undertaken," Prock Schauer wrote. The Tata group wants preference for Vistara and AirAsia India, saying new airlines need slots to grow or it would impact their growth plans. "New airlines need slots to grow or else there will be a duopoly or monopoly in the sector," the Tata executive said. Civil Aviation Secretary Pradeep Singh Kharola defended the rule, saying airlines were pulling out planes from the less lucrative sectors to use them on metro routes.

* As on the Record Date, being January 03, 2019

Subject to extinguishment of 26,82,400 equity shares

MANAGER TO THE BUYBACK OFFER

Narnolia™

Narnolia Financial Advisors Limited (Formerly Microsec Capital Limited) 201, 2nd Floor, Marble Arch 236B, A.J.C Bose Road, Kolkata - 700020 Tel. No : (033) 4050 1500 Fax : (033) 4050 1549 Email: mgoenka@narnolia.com Website: www.narnolia.com Contact Person: Mr. Manay Goenka SEBI Registration Number: INM000010791 Validity Period: Permanent

DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full and final responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true. factual and material information and does not contain any misleading

		For and on behalf o M/s. Techno Electric & Eng	f the Board of Directors of ineering Company Limited
Place: Kolkata Date : April 23, 2019	Sd/- Padam Prakash Gupta Managing Director DIN: 00055954	Sd/- Ankit Saraiya Wholetime Director DIN: 02771647	Sd/- Niranjan Brahma Company Secretary& Compliance Officer M.No.: A11652





खेती को करियर बनाएं युवा : वेंकैया



तिरूपति में बुधवार को श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के8वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को सम्मानित करते उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू

एजेंसी। तिरुपति

युवाओं के लिए। नायडू ने कहा कि भारत में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ और मजबूत कृषि क्षेत्र एक

महत्वपर्ण शर्त है। उन्होंने विशेषकर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उपराष्टपति एम वेकेंया नायड ने रूप से व्यवहारिक और लाभकारी बुधवार को कृषि को आर्थिक रूप से बनाकर उसे एक आकर्षक करियर छात्रों से कहा, इनके लिए एक व्यावहारिक और लाभकारी बनाकर के रूप में अपनाने के उपाय तलाशने निश्चित आय सुनिश्चित करना आप खेती को एक आकर्षक करियर का आहवान किया। श्री वेंकटेश्वर की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी बनाने पर जोर दिया, खासतौर पर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के 8वें चाहिए। नायडू ने कहा कि पशुधन दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन-(एनएसएसओ) के

युवाओं के लिए कृषि को आर्थिक ग्रामीण भारत में अनुमानित 9.02 करोड कृषक परिवार हैं। उन्होंने उत्पादन और कृषि एक-दूसरे से जुड़े हए हैं और ए दोनों समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए अहम हैं। उन्होंने आंकड़ों और अनुमानों का हवाला रेखांकित किया कि कृषि उद्योग

विकास कार्य भी हो रहे हैं। लेकिन इसे

पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने के बाद

इलाके में विकास और स्थानीय लोगों

को रोजगार मिलेगा एवं पलायन

ऐसी किंवदंति है कि विद्यापति

भारत के सकल घरेल उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है और उसमें से 27 प्रतिशत पशपालन का है। जीडीपी में 4.4 प्रतिशत हिस्सा डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन का है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ए आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करते हैं। नायडू ने कहा ये क्षेत्र समूचे देश में करीब 1.6 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

पर्यटन स्थल का दर्जा हासिल करने की बाट जोह रहा है विद्यापति धाम एजेंसी। इंदौर

एजेंसी। विद्यापति नगर (बिहार)

उजियारपर में चुनाव की गहमागहमी के बीच गोस्वामी समुदाय सहित क्षेत्र के लोग मिथिला लोककंठ के नायक कवि कोकिल विद्यापति की समाधि भूमि विद्यापति धाम को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाने के लिए पर्यटन स्थल का दर्जा देने और पिछले डेढ कवि परंपरा को जीवित रखने वाले कोकिल महाकवि विद्यापति ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इसी पावन . दिया गया। यहां पर्यटन केंद्र खोलने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां संस्कृत एवं प्रसन्न होकर विराजमान हुए थे। साथ ही राष्ट्रीय क्षितिज पर महाकवि विद्यापति की विरासत को सहेजने में विद्यापति नगर को पर्यटन स्थल का मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुरे दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इंटर कालेज की मान्यता पिछले वर्ष विद्यापति नगर रेलवे स्टेशन का

समाप्त हो गई। इससे करीब 1800 विकास एवं विस्तार हुआ है एवं अन्य छात्रों के भविष्य पर सवाल खडा हो गया है। वर्तमान सांसद ने इसके लिए प्रयास किया लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है।

गौरतलब है कि विद्यापति प्रखंड रूकेगा। इस क्षेत्र में रोजगार के अन्य की करीब एक दर्जन पंचायत में 1.25 साधन नहीं हैं। वर्तमान में यह बालेश्वर लाख मतदाता हैं। विद्यापतिधाम में स्थान विद्यापतिधाम के नाम से प्रसिद्ध पुजा- अर्चना कराने वाले जगबंधु गिरि है। इस स्थान पर मैथिली, संस्कृत, दशक पहले बंद हुए पर्यटन केंद्र को ने कहा कि यह क्षेत्र ज्ञान की भूमि रही बंगला, अवधी और अवहट्ट भाषा के फिर से खोलने की बाट जोह रहे हैं। है जहां वेद, संस्कृत भी पल्लवित होती विद्वान कवि कोकिल विद्यापति ने रही हैं। बीते वर्षों में क्षेत्र का विकास समाधि ली थी। गणेश गिरि कहते हैं कि मैथिल भी हुआ है लेकिन ज्ञान परंपरा से जुड़े संस्कृत एवं वेद पाठशालाएं यहां नहीं जी के आह्वान पर माता गंगा स्वयं इस हैं। संस्कृत एवं वेद शिक्षा के लिए स्थान पर पहुंची तथा उन्हें कार्तिक भूमि में महानिर्वाण प्राप्त किया था। बच्चों को वाराणसी एवं अन्य स्थानों शुक्ल त्रयोदशी को अपने अंक में यहां पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। पर भेजना पडता है। उन्होंने कहा कि समेटते हुए लौट गई थीं। किंवदंतियों पहले यहां एक पर्यटन केंद्र हुआ करता हमें उम्मीद है कि वाराणसी का के मुताबिक यहां स्वयं भगवान शिव था, लेकिन 15 वर्ष पहले उसे बंद कर प्रतिनिधित्व करने वाले देश के कवि कोकिल की भक्ति भावना से

दलित युवक की थाने में संदिग्ध हालात में मौत

चोरी की शंका में पूछताछ के लिए यहां पुलिस थाने लाए गए 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में थाना प्रभारी समेत पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. इस दलित युवक के परिजनों ने पुलिस की क्रूरतापूर्ण पियई से उसकी मौत हो जाने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) सूरज वर्मा ने बुधवार को 'पीटीआई-भाषौ को बताया कि गांधी नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर में नकबजनी (घर में घुसकर चोरी) की हालिया वारदात में कुछ नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया गया था. मामले में संदेह के आधार पर संजु टिपाणिया (22) को पछताछ के लिए मंगलवार गांधी नगर पुलिस थाने लाया गया था। उन्होंने कहाकि पूछताछ के दौरान संजू को सांस लेने में दिक्क्त हुई और वह अचेत होने लगा। पलिस ने फौरन गक टॉक्स को

मध्य प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती से सरकार हुई सतर्क

भोपाल। बिजली अधिशेष वाले राज्य मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनावों के बीच में हो रही अघोषित बिजली कटौती से कांग्रेस सरकार सावधान हो गई है। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने मंगलवार को कहा कि खासकर चुनावों के दौरान बिजली कटौती से होने वाली संभावित राजनीतिक हानि को महसुस करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उर्ज़ा मंत्री से पिछले एक माह में बिजली की उपलब्धता, वितरण और बिजली कटौती पर विस्तुत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कमलनाथ ने मंगलवार को भोपाल में संवाददाताओं से बिजली कटौती पर कहा कि ए षड्यंत्र है। हमने कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। कुछ लोग साजशि कर रहे है, तार काट रहे हैं, शार्ट सर्किट कर रहे हैं ताकि बिजली संकट का माहौल बने जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। राज्य के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने हाल ही में अपने गृह जिले जबलपुर में एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के कुछ कर्मचारी कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे, इनके साथ आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद निपटा जाएगा। वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सत्ता से बेदखल होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्वियज सिंह ने बिजली की कमी को कांग्रेस की हार का प्रमख कारण बताया था। 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में वापस लौटी कांगेस विशेषकर लोकसभा चनाव के दौरान हो रही अघोषित बिजली कटौती से सतर्क हो गई है। आम चुनाव के तहत मध्यप्रदेश में पहले चरण के लिए छह लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा।

TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LIMITED Ö

(Formerly Simran Wind Project Limited) CIN: L40108UP2005PLC094368 Regd. Office: C-218, Ground Floor (GR-2), Sector-63 Noida Gautam Buddha Nagar-201307 Corporate Office: 1B, Park Plaza, South Block, 71, Park Street, Kolkata-700016 Phone No: (033) 4051 3000, Fax No: (033) 4051 3326, Website: www.techno.co.in; E-mail: desk.investors@techno.co.in Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Niranjan Brahma

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LIMITED

ent (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board o India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated December 13, 2018 and published on December 17, 2018 (the "Public Announcement"), and the Letter of Offer dated March 20, 2019 (the "Letter o Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Ann Letter of Offer.

I. THE BUYBACK

- 1.1 Techno Electric & Engineering Company Limited ("Techno" or the "Company") had announced the Buyback of up to 26,82,400 fully paid-up equity shares of face value of Rs 2/- each ("Equity Shares") from all the existing shareholders/beneficial owners holding Equity Shares as on the Record Date (i.e. January 03, 2019), as per the records made available to the Company by the Depositories as on the Record Date, on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of Rs. 410 per Equity Share payable in cash, for an aggregate amount not exceeding Rs. 109,97,84,000 (Rupees One Hundred Nine Crores Ninety Seven Lakhs Eighty Four Thousand Only) excluding Company's transaction cost such as brokerage, securities transaction tax, service tax, stamp duty etc. ("Buyback Offer Size") ("Buyback"). The Promoters and Promoter Group of the Company had expressed their intention not to participate in the Buyback. The Buyback Offer Size is 2.38% of the present outstanding equity shares of the Company and 9.10% of the aggregate of fully paid-up equity share capital and free reserves as per the standalone audited accounts of the Company for the financial year ended March 31, 2018 and is within the statutory limit of 10% of the aggregate of fully paid-up equity share capital and free reserves as per the standalone audited accounts of the Company for a Buyback under the Board of Directors approval route as per the provisions of the Companies Act, 2013.
- 2 The Company had adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 ("SEBI Circular")
- The Tendering Period for the Buyback Offer opened on Friday, March 29, 2019 and closed on Thursday, April 11, 2019
- DETAILS OF BUYBACK
- 26,82,400 Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 410 per Equity Shares
- 2.2 The total amount utilized in the Buyback is Rs. 109,97,84,000 (Rupees One Hundred Nine Crores Ninety Seven Lakhs Eighty Four Thousand Only) excluding Company's transaction cost such as brokerage, securities transaction tax, service tax, stamp duty etc.
- 2.3 The Registrar to the Buyback i.e., Niche Technologies Private Limited ("Registrar"), considered 8,777 valid bids for 2,42,49,092 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the tender of approximately 9.04 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity shares	No. of Valid bids	Total Valid Equity	% Response
	reserved in Buyback		shares tendered	
Reserved Category for small shareholders	4,02,360	8352	9,07,370	225.51
General Category of other shareholders	22,80,040	425	2,33,41,722	1023.74
Total	26,82,400	8777	2,42,49,092	904.01

2.4 All valid bids have been considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer

- 2.5 The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on April 23, 2019. The funds have been directly paid out to Eligible Shareholders by the Clearing Corporation whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India of any or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned selling members for onward transfer to such Eligible Shareholders
- 2.6 Demat Equity Shares accepted under the Buyback have been transferred to the Company's demat escrow account on April 23, 2019. The unaccepted demat Equity Share have been returned to respective Shareholder Brokers/custodians by the Indian Clearing Corporation Limited on April 23, 2019
- The extinguishment of 26,82,400 Equity Shares accepted under the Buyback is currently under process and shall be completed on or before April 30, 2019
- 2.8 The Company and its directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN The equity capital structure of the Company, pre and post the Buyback is as under:

(Equity shares have a face value of Rs. 2 each)

	Pre-Buyba	:k*	Post-Buyback#		
Particulars	No. of equity shares	Amount (Rs. in crores)	No. of equity shares	Amount (Rs. in crores)	
Authorized Equity Share Capital	1,39,99,00,000	279.98	1,39,99,00,000	279.98	
Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital	11,26,82,400	22.54	11,00,00,000	22.00	

As on the Record Date, being January 03, 2019

Subject to extinguishment of 26,82,400 equity shares

3.2 Details of the Shareholders/beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback are as

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Shares
1	J.P. Financial Services Pvt Ltd	3,14,019	11.707	0.285
2	DSP Midcap Fund	1,58,745	5.918	0.144
3	SBI Focused Equity Fund	1,53,902	5.737	0.140
4	SBI Equity Hybrid Fund	1,36,052	5.072	0.124
5	ECAP Equities Limited	1,13,969	4.249	0.104
6	Franklin India Smaller Companies Fund	1,10,081	4.104	0.100
7	Kotak Standard Multicap Fund	1,07,465	4.006	0.098
8	DSP Small Cap Fund	98,966	3.689	0.090
9	HDFC Standard Life Insurance Company Limited	91,176	3.399	0.083
10	SBI Small Cap Fund	85,043	3.170	0.077
11	SBI Magnum Multicap Fund	84,402	3.147	0.077
12	ICICI Prudential Life Insurance Company Limited	82,643	3.081	0.075
13	Kotak Small Cap Fund	59,554	2.220	0.054
14	L & T Mutual Fund Trustee Limited - L & T Hybrid Equity Fund	57,822	2.156	0.053
15	L&T Mutual Fund Trustee Limited-L&T Emerging Businesses Fund	54,953	2.049	0.050
16	L & T Mutual Fund Trustee Ltd-L & T Mid Cap Fund	49,594	1.849	0.045
17	Max Life Insurance Company Limited			
	A/C - ULIF01108/02/07LIFEGRWSUP104 - Growth Super Fund	44,352	1.653	0.040
18	Kotak Equity Hybrid	42,254	1.575	0.038
19	L & T Mutual Fund Trustee Ltd-L & T Tax Advantage Fund	34,058	1.270	0.031
20	DSP India T.I.G.E.R. Fund	32,895	1.226	0.030
21	Aditya Umesh Sanghi	27,977	1.043	0.025

रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, वैदिक शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय से आठ किलोमीटर दक्षिण तथा बेगुसराय करेंगे। क्षेत्र के लोग लम्बे समय से जिले के बछवाडा प्रखंड से आठ किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह तीर्थ विद्यापति प्रखंड में एकमात्र विद्यापति राम प्रकाश गिरि का कहना है कि स्थल पक्की सड़कों और रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है।

खरीदार को फ्लैट न देने पर बिल्डर को तीन साल की सजा

एजेंसी। मुंबई

महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक आयोग ने 18 अप्रैल को दिए अपने आदेश में कहा है कि खरीदार को फ्लैट का कब्जा देने के संबंध में उसके आदेश की तामील नहीं करने पर शहर के एक बिल्डर को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त फैसले का पालन करता है तो उसे जेल से रिहा किया न्यायाधीश एपी भांगले और सदस्य एस के ककडे की पीठ जाएगा।पैनल से इस बात पर भी गौर किया कि दादरकर ने ने कहा कि एसडी कंस्ट्रक्शंस के मालिक शेखर दादरकर ने आयोग के 2016 के आदेश की जानबुझकर अवहेलना की है। इस फैसले में आयोग ने उसे निर्देश दिया था कि वह 🛛 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाया और उसे अरूण केजरीवाल को तीन महीने के अंदर फ्लैट का कब्जा दिया जाए। पैनल ने रेखांकित किया है कि शिकायतकर्ता पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

केजरीवाल ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया लेकिन बिल्डर अंतिम फैसले पर अमल करने में नाकाम रहा। दादरकर को जेल भेजने के लिए हिरासत में लिया जाए। अगर आरोपी इस पैनल के 20 सितंबर 2016 के अंतिम शिकायतकर्ता को धोखा देने के मकसद ने उक्त फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। आयोग ने दादरकर को तीन साल की साधारण कैद की सजा देने के साथ ही उस

पेज एक का शेष

वकील के...

खंडन करने के लिए इतना नीचे नहीं जाएंगे। इससे पहले, कुछ समाचार पोर्टल पर उच्चतम न्यायालय की पूर्व कर्मचारी द्वारा प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीडन के आरोपों का दावा करने संबंधी खबर प्रकाशित हुई थीं। यौन उत्पीडन के इस सनसनीखेज मामले पर शनिवार को शीर्ष अदालत में असामान्य और अप्रत्याशित सुनवाई के बाद बैंस ने न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में उन्होंने दावा किया कि उन्हें शीर्ष अदालत की पूर्व महिला कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने और प्रधान न्यायाधीश के लिए डेढ करोड रुपए देने की पेशकश की गई थी। इसके बाद मंगलवार को न्यायालय ने बैंस को लिफाफे में सामग्री पेश करने का निर्देश दिया था।

प्रधानमंत्री मोदी..

वक्त घर छोड़ा था, उस वक्त तकलीफ हुई होगी हैं तो उनके मन में भी ऐसा नहीं रहा होगा। मेरे लेकिन अब जिंदगी वैसी बन गई। मन करता है तो कभी मां को बुला लिया, उनके साथ कुछ दिन बिताए। मैं जब मां से मिलता हूं तो सवा रुपये मेरे हाथ पर रख देती हैं। फिर मां कहती है कि मेरे पीछे समय क्यों बर्बाद करते हो, मैं यहां क्या करूं, गांव में लोग आते हैं, बातें करते हैं। मैं भी समय नहीं दे पाता।

अक्षय ने कहा कि मैंने अपने डाइवर की बेटी से पूछा कि मोदी से कोई सवाल पूछना चाहोगी। उसने कमाल का सवाल पूछा। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? खाते हैं तो काट के खाते हैं या फिर गुठली के साथ खाते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, आम मैं खाता हूं और मुझे यह बहुत पसंद है। गुजरात में आमरस की परंपरा भी है। जब मैं छोटा था कभी खेतों में चले जाता था। देश का किसान बडा उदार खिलाफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कांफ्रेस के रहता है। खेत में आकर खाने पर रोकता नहीं है। चोरी पर रोकता है। पेड़ पर पके आम खाना मुझे पसंद था। प्राकृतिक रूप से पके हुए खाना। जब नोटिस जारी कर इस दावे के समर्थन में सीलबंद बड़े हुए तो आमरस और कई किस्म के आम खाने की आदत हुई। अब लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। सोचना पडता है कि इतने खाऊं की नहीं।

इस सवाल पर कि क्या उन्होंने सोचा था कि निकला था। उसके बाद परिवार से जिंदगी कभी पीएम बनेंगे और अगर सोचा भी था तो अलग हो गई। मेरी ट्रेनिंग इसी तरह से हुई है। किस उम्र में ऐसा सोचा था, पीएम मोदी ने कहा, एक अवस्था में छोड़ा तो मुश्किल होती है। जिस मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। शायद जो बन जाते

थाने में बुलाया जिसने जांच के बाद बताया कि युवक का रक्त चाप कम हो गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक को पहले गांधी नगर के ही एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) भेज दिया गया। लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वर्मा ने बताया कि मामले में गांधी नगर थाने की प्रभारी नीता देअरवाल और चार आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। मृत युवक के परिजनों और उसके समुदाय के कुछ लोगों का आरोप है कि संज के साथ उसकी मां नंदी बाई (60) को भी कल गांधी नगर पुलिस थाने ले जाया गया था। थाने में मां-बेटे की बुरी तरह पियई की गई थी। इस बीच,लोगों ने मामले में संबंधित पुलिस कर्मियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग करते बुधवार को गांधी नगर पुलिस थाने का घेराव किया।

परिवार की जिस तरह की स्थिति रही है, उसमें तो

मुझे एक छोटी नौकरी भी मिल जाती तो मेरी मां

खुश हो जाती। हां, अगर किसी का परिवार ऐसा

होता है और वह ऐसा सोचता है तो फिर वह

अलादीन का चिराग हो, जिन्न तीन इच्छा पूरी करने

के बारे में कहे तो आप क्या मांगेंगे, प्रधानमंत्री ने

कहा कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है और

अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाये तो मैं उसे

कहूंगा की ये जितने भी समाजशास्त्री और

शिक्षाविद हैं उनके दिमाग में भर दो कि वे आने

वाली पीढ़ियों को ये अलादीन के चिराग वाली

थ्योरी पढानी बंद कर दें। उन्हें मेहनत करने की

है...गुस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, किस पर

निकालते हैं, उन्होंने कहा, गुस्सा इंसान के स्वभाव

का हिस्सा लेकिन 18-22 की उम्र के दौरान जो

ट्रेनिंग हुई उसमें यह बताया गया है कि ईश्वर ने स्वभाव में सबकुछ दिया, आपको तय करना है कि

अच्छी चीजों को बल देते हुए कैसे बढ़ना है। मैं

अपनी टीम बनाता जाता हूं तो मेरे तनाव और दबाव

बंटते चले जाते हैं। गुस्सा आता है लेकिन व्यक्त

इस सवाल पर कि क्या आपको गुस्सा आता

अक्षय ने जब यह पूछा कि आपके पास

अलग बात है।

शिक्षा दें।

करने से बचता हं।

3.3 The shareholding pattern of the Company pre-buyback and Post Buyback is as under

	Pre-Buyba	ick*	Post-Buyback#	
Particulars	No. of equity shares	% of existing equity share capital	No. of equity shares	% of Post- Buyback equity share capital
Promoters and persons acting in Concert (Collectively "the Promoters")	6,62,01,276	58.75%	6,62,01,276	60.1 8 %
Foreign Investors				
(Including Non Resident Indians, FIIs and Foreign Mutual Funds)	14,23,068	1.26%	107 00 701	39.82%
Financial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/Institutions	2,61,41,442	23.20%	4,37,98,724	
Others (Public, Public Bodies Corporate etc.)	1,89,16,614	16.79%		
Total	11,26,82,400	100.00%	11,00,00,000	100.00%
 * As on the Record Date, being January 03, 2019 # Subject to extinguishment of 26,82,400 equity shares 4. MANAGER TO THE BUYBACK OFFER 				
Namolia Financial Ad				

Narnolia

ty Microsec Capital Lim 201, 2nd Floor, Marble Arch 236B, A.J.C Bose Road, Kolkata - 700020 Tel. No : (033) 4050 1500 Fax : (033) 4050 1549 Email: mgoenka@narnolia.com Website: www.narnolia.com Contact Person: Mr. Manay Goenka SEBI Registration Number: INM000010791 Validity Period: Permanent

DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full and final responsibility for the information contained in this Pos Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading

		For and on behalf of the Board of Directors of M/s. Techno Electric & Engineering Company Limited	
Place : Kolkata Date : April 23, 2019	Sd/- Padam Prakash Gupta Managing Director DIN: 00055954	Sd/- Ankit Saraiya Wholetime Director DIN: 02771647	Sd/- Niranjan Brahma Company Secretary& Compliance Officer M.No.: A11652